

PNB Finance and Industries Limited
 CIN No.:-L6592DL1947PLC001240; Website: www.pnbfinanceindustries.com
 Regd. Office:- 1st Floor, Express Building, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
 Telephone:- +91-7303495375; E-mail: pnbfinanceindustries@gmail.com

NOTICE OF 128th ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

1. Notice is hereby given that 128th Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company will be convened on Wednesday, July 12, 2023 at 10:30 A.M. IST through Video Conferencing ("VC") facility only without the physical presence of the members at a common venue to transact the business as set out in the notice of the 128th AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 20/2022 dated December 28, 2022 in continuation of General Circular 02/2022 dated May 05, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI Circulars) (collectively referred as "relevant circulars").

2. In compliance with the relevant circulars, electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2022-23 have been sent to the members on June 19, 2023 whose e-mail-IDs are registered with the depositories/Company as on June 09, 2023. This communication and the notice along with the Annual Report for 2022-23 are also available at Company's website www.pnbfinanceindustries.com and NSDL's website https://www.evoting.nsdl.com.

3. The Register of Members and Share Transfers Books of the Company shall remain closed from July 06, 2023 to July 12, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

REMOTE E-VOTING

4. In accordance with the provision of section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company has availed services of National Securities Depository Limited (NSDL) to provide e-voting facility to its members. The members may note below with respect to the remote e-voting services as availed by the Company:

(i) The ordinary and special business, as set out in the Notice of the 128th AGM, will be transacted through voting by electronic means;

(ii) Date and time of commencement of remote e-voting: July 08, 2023 (9:00 A.M.);

(iii) Date and time of end of remote e-voting: July 11, 2023 (5:00 P.M.);

(iv) The cut-off date, for determining the eligibility to vote through remote e-voting or through e-voting system during the 128th AGM is July 05, 2023;

(v) Members may note that a) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently; b) the Members who have cast their vote by remote e-voting prior to AGM may participate in the AGM through VC facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-voting system during AGM; c) the members participating in the AGM and who had not cast their vote by remote e-voting, shall be entitled to cast their vote through e-voting system during the AGM; d) a person whose name is recorded in the Register of Members as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting, participating in the AGM through VC facility and e-voting during the AGM.

5. Any person, who has acquired shares and become a member of the Company after the dispatch of Notice of AGM but before the cut-off date i.e. July 05, 2023, may cast their vote by following the instructions for e-voting as provided in the Notice convening the AGM, which is available on the website of the Company and NSDL. However, if the person is already registered with NSDL for remote e-voting then the existing user ID and password can be used to casting vote.

6. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, at the designated email id - pallaviid@nsdl.co.in or call on toll free no.: 1800 1020990 and 1800 22 44 30 who will also address the grievances connected with the voting by electronic means.

Date: June 19, 2023
 Place: New Delhi

For PNB Finance and Industries Limited
 Sd/-
 Shweta Saxena
 Director & Company Secretary

RAS RESORTS AND APART HOTELS LIMITED
 Regd. Office: Rosewood Chambers, 99/C Tulsiwadi, Tardeo, Mumbai - 400 034.
 CIN: L45200MH1985PLC035044
 Tel No. 4321 6600 E-mail id: companysecretary@rasresorts.com
 Website: www.rrah.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS WITH RESPECT TO 39th ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 39th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Saturday, August 05, 2023 at 11.00 a.m. through Video Conferencing ("VC") or other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the business set out in the Notice of the AGM which will be circulated for convening the AGM. The AGM will be held without the physical presence of the Shareholders at a common venue.

In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, read with notifications and General Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being December 28, 2022 (collectively referred to as "MCA Circulars"). Further, SEBI vide its Circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022 and January 5, 2023 has allowed listed entities to send their Annual Report in electronic mode.

The instructions for joining the AGM are being provided in the Notice of the AGM and attendance of the Shareholders attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2022-23 ("Annual Report") would be sent only by electronic mode to those Shareholders whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participants/Registrar and Share Transfer Agent (RTA) in accordance with the aforesaid MCA circulars and said SEBI Circular.

The Notice of the AGM and Annual Report will also be available on the website of the Company at www.rrah.com and websites of BSE Limited i.e. at www.bseindia.com. The Company is pleased to provide the facility of e-voting to its Shareholders, to enable them to cast their votes on the resolutions proposed to be passed at the AGM by electronic means, using remote e-voting system (e-voting from the place other than venue of the AGM) as well as e-voting during the proceeding of the AGM (collectively referred as e-voting"). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL), for providing the e-voting facility to the Shareholders. The instructions for e-voting are provided in the Notice of the AGM.

Shareholders whose Email IDs are already registered with the Company/ Depository/RTA, may follow the Instructions for e-voting as provided in the Notice of the AGM. Members who have still not registered their e-mail ID are requested to get their e-mail ID registered on or before 05th July, 2023 as follows:

1. Shares in Physical Mode: please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) along with form no. ISR-1 as per SEBI Circular dated 03rd November, 2021 by email and in hard copy to M/s Satellite Corporate Services Private Limited, Registrar and Transfer Agent at service@satellitecorporate.com / Company at companysecretary@rasresorts.com (Kindly click the following link to download the form: http://www.satellitecorporate.com/KYC-IR%20physical.pdf)

2. Shares in Dematerialized Mode: please provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to M/s Satellite Corporate Services Private Limited, Registrar and Transfer Agent at service@satellitecorporate.com / Company at companysecretary@rasresorts.com for sending the notice through email and also get the details updated in your demat account for future purpose.

Place: Mumbai
 Date: 19.06.2023

For Ras Resorts and Apart Hotels Limited
 Sd/-
 Binita Patel
 Company Secretary & Compliance Officer

HERO MotoCorp Limited
 CIN: L35911DL1984PLC017354
 Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj - Phase II, New Delhi - 110070
 Phone No. 011-46044220 / Fax No. 011-46044399
 E-mail: secretarialho@heromotocorp.com
 Website: www.heromotocorp.com

PUBLIC NOTICE FOR ISSUE OF DUPLICATE SHARE CERTIFICATE

Members of the general public and existing shareholders of Hero MotoCorp Ltd. ("Company") are hereby informed that the Original Share Certificate, details of which are given hereunder have been reported lost/misplaced/stolen/not received and that pursuant to request received from concerned shareholder, the Company intends to issue duplicate share certificate in lieu of the said original Share Certificate (Face Value Rs.2/-) in its favour:

Folio No.	Shareholder Name	Face Value	Distinctive Nos.	Certificate No.(s)	No. of Shares
HMLD0104334	Pradip Kumar Sampathlal Shah	FV 2/-	158922581-158922830	515977	250

Any person having objection to issue of duplicate Share Certificate, as mentioned herein above, may submit the same, in writing, with the Company marked to the "Secretarial Department" at its Registered Office or send an email at secretarialho@heromotocorp.com within 7 days from the date of publication of this Notice. In the meanwhile, members of the public are hereby cautioned against dealing in the above mentioned Share Certificate.

For Hero MotoCorp Ltd.
 Sd/-
 Dhiral Kapoor
 Company Secretary & Compliance Officer

Place: New Delhi
 Date: 19.06.2023

SOM DATT FINANCE CORPORATION LIMITED
 CIN: L6592DL1993PLC377542
 Registered Office: 516, Sunega Tower-I, District Centre, Janakpuri, Delhi - 110058
 Tel No. 0124-4396900; compliancesd@sdfl.com; Website: www.somdattfin.com.

PUBLIC NOTICE

(In accordance with Master Direction No. DNBR PD.007/03.10.119/2016-17 dated September 1, 2016, issued by the Reserve Bank of India)

1. Som Datt Finance Corporation Limited ("Company") was incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 as a public limited company. The Company is registered with the Reserve Bank of India ("RBI") as a Non-Banking Financial Company ("NBFC") vide certificate of registration bearing No. B-14 03556 dated September 23, 2021. The Company inter-alia is engaged in the business of investments, loans and advances etc.

2. As on date, the Company has a total paid up equity share capital of Rs. 10,00,79,700 (rupees ten crores seventy nine thousand seven hundred only), comprising of 1,00,07,970 (one crore seven thousand nine hundred and seventy) fully paid-up equity shares of face value Rs. 10 (rupees ten only) each and the shareholding pattern is divided in the manner as follows:

(i) 69,39,650 (sixty nine lakh thirty nine thousand six hundred and fifty) equity shares of face value Rs. 10 (rupees ten only) each of the Company, constituting 69.34% (sixty nine point three four percent) of the total equity share capital of the Company held by persons belonging to the promoter and promoter group of the Company and being Mr. Kuldip Singh Rathee and Mrs. Vijay Rathee (collectively the "Sellers"), and

(ii) 30,68,320 (thirty lakh sixty eight thousand three hundred and twenty) equity shares of face value Rs. 10 (rupees ten only) each of the Company, constituting 30.66% (thirty point six six percent) of the total equity share capital of the Company held by the public shareholders.

The equity shares of the Company are listed and traded on BSE Limited ("BSE").

3. As the Sellers do not wish to continue with the NBFC business, they propose to sell their entire stake in the Company to two individuals namely (i) Dr. Bhaskara Rao Bollineni S/O late Mr. Ramanahai Naidu Bollineni, an adult Indian inhabitant, age about 69 years, residing at H No. 21-26/4, Survey No. 611, 612 and 613, Mission Compound Near RGI Police Station, Shamshabad, Hyderabad - 501218, Telangana, and (ii) Mr. Bhavanam Rutvik Reddy S/O late Mr. Bhavanam Srinivas Reddy, an adult Indian inhabitant, age about 28 years, residing at 8-2-29/82/HE/4, Huda Enclave, Jubilee Hills, Near Andhra Jyothi Office, Shaikpet, Hyderabad - 500096, Telangana ("Acquirers"). For the same, the Acquirers have entered into a Share Purchase Agreement dated November 09, 2022 ("SPA"), with the Sellers for the acquisition of up to 69,39,650 equity shares of face value Rs. 10 each of the Company, representing 69.34% of the total issued, outstanding and fully paid-up equity share capital of the Company carrying voting rights ("Sale Shares") for an aggregate consideration of Rs. 23,51,00,000 (rupees twenty three crore fifty one lakhs only), which works out to approx. Rs. 33.88 (rupees thirty three and paise eighty eight only) per equity share.

4. Dr. Bhaskara Rao Bollineni holds a bachelor's degree in medicine and surgery (MBBS) from Rangaraya Medical College from Andhra University and master's degree in surgery (MS) from Madras Medical College from University of Madras and completed his post-graduation in Diplomate of National Board (DNB) specialised in Cardio Thoracic Surgery which is a medical qualification awarded by the National Board of Examinations, New Delhi. He is among the pioneering cardiothoracic surgeons in the country. He is the founder of the prestigious Krishna Institute of Medical Sciences Limited (KIMS). He was instrumental in formulating the Rajiv Gandhi Arogyasri scheme that imparts healthcare to the low-income earning individuals. Mr. Bhavanam Rutvik Reddy holds a bachelor's degree in Technology specialised in Civil Engineering from SRM Institute of Science and Technology (formerly known as SRM University). He has an experience of 5 years as business analyst.

5. As a result of entering into the SPA with the Sellers, the Acquirers have triggered the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("Takeover Regulations") and therefore, have made an open offer to the public shareholders of the Company vide Public Announcement dated November 09, 2022. Detailed Public Statement published on November 16, 2022 and the Letter of Offer dated May 19, 2023, to acquire up to 26,02,073 fully paid-up equity shares of face value Rs. 10 each of the Company representing 26.00% of the total issued, outstanding and fully paid-up equity share capital of the Company at an offer price of Rs. 33.88 (rupees thirty three and paise eighty eight only) per equity share plus Applicable Interest of Rs. 0.52 (paise zero and paise ninety two only) per equity share both amounting to Rs. 34.80 (rupees thirty four and paise eighty only) per equity share ("Offer Price plus Applicable Interest"), for an aggregate consideration of up to Rs. 9,05,52,140.40 (rupees nine crore five lakhs fifty two thousand one hundred and forty and paise forty only) ("Open Offer"). The tendering period of Open Offer to the public shareholders of the Company has commenced on May 29, 2023 and closed on June 09, 2023.

6. Pursuant to completion of the Open Offer formalities in accordance with the Takeover Regulations and in terms of the SPA, the Acquirers will gain control over the management of the Company and will accordingly take steps to categorise themselves as the new promoters of the Company.

7. In terms of the Master Direction No. DNBR PD.007/03.10.119/2016-17 dated September 1, 2016, issued by the RBI, the Company had made an application dated November 15, 2022 to the Regional Office of the RBI, Department of Supervision, New Delhi, seeking the prior approval of the RBI for the proposed change in control and management of the Company. RBI has vide its letter dated May 11, 2023, bearing reference No. P. Pr. (C.R. No. 1540/2022) dated May 11, 2023 and 24 granted its prior approval for the proposed change in control and management of the Company ("RBI's Approval Letter").

8. Notice is hereby given that any person having any objection to or whose interest is likely to be affected by the proposed change in ownership, control and management of the Company may intimate in writing to (i) the Company; and (ii) the concerned Regional Office of the Reserve Bank of India, Department of Supervision, New Delhi within 30 (thirty) days from the date of publication of this notice stating therein the nature of interest and ground for objection.

9. After expiry of the 30 (thirty) days from the date of publication of this notice, the Sellers will sell the Sale Shares and relinquish their ownership, control and management of the Company to the Acquirers. Subsequently, the constitution of the present board of the directors of the Company will undergo a change viz. new directors will be appointed and certain current directors may resign.

10. This notice is being given pursuant to RBI's Master Direction in terms of Non-Banking Financial Company Non-Systemically Important Non-Deposit taking Company (Reserve Bank) Directions, 2016, issued in terms of Master Direction No. DNBR PD.007/03.10.119/2016-17 dated September 1, 2016, read with RBI's Approval Letter, and other relevant regulations, jointly by the Acquirers, the Company and the Sellers.

By Som Datt Finance Corporation Limited
 Sd/-
 Mrs. Vijay Rathee
 Managing Director
 By Sellers
 Sd/-
 Mr. Kuldip Singh Rathee
 By Acquirers
 Sd/-
 Dr. Bhaskara Rao Bollineni
 Sd/-
 Mr. Bhavanam Rutvik Reddy

Place: Gurugram
 Date: June 19, 2023

TRANSMISSION CORPORATION OF TELANGANA LIMITED
TENDER NOTICE

The TSTransco invites online Bids under e-procurement for supply of following material.

1. Tender Specification No.: TSPMM22-21/2023, Description of Material: Supply of 9 Nos. each of 250 KVA & 100 KVA, 33kV/415V Station Transformers.

2. Tender Specification No.: TSPMM23-22/2023, Description of Material: Supply & Installation of Desktop Computers. Ph: 040-23396000 (Extn. 3670, 3583, 3460, 3357, 3521, 3334)

Tenders can have further details and download the tender schedule from e-procurement market place i.e. http://tender.telangana.gov.in (Telangana State), Contact Nos.: CHIEF ENGINEER/ P&MM, TSTransco, 040-23303736 www.tstransco.in
 RO- 11/23
 Sd/- Chief Engineer/P&MM

NEULAND LABORATORIES LIMITED
 (CIN: L85195TG1984PLC004393)
 Registered office: 11th Floor (5th Level), Phoenix IVY Building, Plot No. 57A-III, Road No. 82, Jubilee Hills, Hyderabad, 500033, Telangana, India. Tel: +91 40 6761 1600
 Website: www.neulandlabs.com email: ir@neulandlabs.com

NOTICE OF 39th ANNUAL GENERAL MEETING

1. Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Thursday, July 27, 2023, at 11.00 a.m. IST through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") facility, in accordance with General Circular nos. 14/2020 and 17/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020, read with other relevant circulars, including General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 issued by SEBI (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"), without the physical presence of the members at a common venue.

2. The notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2022-23 including the financial statements for the year ended March 31, 2023 will be sent to all the members, whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants ("Depository"), in accordance with the aforesaid Circulars. Members can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the AGM are provided in the notice of the AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the Company's website www.neulandlabs.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively.

3. Members whose email IDs are not registered/ updated with their Depository are hereby requested to register/ update their email IDs with the respective Depository or with KFIn Technologies Limited (the Company's RTA) by sending a request to the Company's RTA on the email address at einward.ris@kfintech.com with subject line (unit-Neuland Laboratories Limited):

-Name of member;
 -Folio No. / Client ID and DP-ID;
 -In case shares are held in Physical form- Scan Copy of Share Certificate;
 -Self-attested scanned copy of the PAN Card; and
 -Self-attested scanned copy of AADHAR Card

4. The record date for determining entitlement of members to the final dividend for the financial year ended March 31, 2023, if approved at the 39th AGM of the Company, is July 11, 2023.

Further, pursuant to Income Tax Act, 1961 ("the IT Act"), dividend income is taxable in the hands of the members and the Company is required to deduct tax at source ("TDS") from dividend paid to the members at prescribed rates in the IT Act. For the prescribed rates for various categories, conditions for Nil / preferential TDS and details / documents required therefor, members are requested to refer to the IT Act and notice of the 39th AGM. In general, to enable compliance with TDS requirements, members are requested to complete and / or update their residential status, PAN, category as per the IT Act with their Depository or in case shares are held in physical form, with the Company by sending email to ir@neulandlabs.com.

In the event the Company is unable to pay the dividend to any member by electronic mode, due to non-registration of the electronic bank mandate, the Company shall dispatch the dividend warrant bankers' cheque / demand draft to such member, as soon as possible.

For Neuland Laboratories Limited
 Sd/-
 Sarada Bhamidapati
 Company Secretary

Place: Hyderabad
 Date: 19-06-2023

RAS RESORTS AND APART HOTELS LIMITED
 Regd. Office: Rosewood Chambers, 99/C Tulsiwadi, Tardeo, Mumbai - 400 034.
 CIN: L45200MH1985PLC035044
 Tel No. 4321 6600 E-mail id: companysecretary@rasresorts.com
 Website: www.rrah.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS WITH RESPECT TO 39th ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 39th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Saturday, August 05, 2023 at 11.00 a.m. through Video Conferencing ("VC") or other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the business set out in the Notice of the AGM which will be circulated for convening the AGM. The AGM will be held without the physical presence of the Shareholders at a common venue.

In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, read with notifications and General Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being December 28, 2022 (collectively referred to as "MCA Circulars"). Further, SEBI vide its Circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022 and January 5, 2023 has allowed listed entities to send their Annual Report in electronic mode.

The instructions for joining the AGM are being provided in the Notice of the AGM and attendance of the Shareholders attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2022-23 ("Annual Report") would be sent only by electronic mode to those Shareholders whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participants/Registrar and Share Transfer Agent (RTA) in accordance with the aforesaid MCA circulars and said SEBI Circular.

The Notice of the AGM and Annual Report will also be available on the website of the Company at www.rrah.com and websites of BSE Limited i.e. at www.bseindia.com. The Company is pleased to provide the facility of e-voting to its Shareholders, to enable them to cast their votes on the resolutions proposed to be passed at the AGM by electronic means, using remote e-voting system (e-voting from the place other than venue of the AGM) as well as e-voting during the proceeding of the AGM (collectively referred as e-voting"). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL), for providing the e-voting facility to the Shareholders. The instructions for e-voting are provided in the Notice of the AGM.

Shareholders whose Email IDs are already registered with the Company/ Depository/RTA, may follow the Instructions for e-voting as provided in the Notice of the AGM. Members who have still not registered their e-mail ID are requested to get their e-mail ID registered on or before 05th July, 2023 as follows:

1. Shares in Physical Mode: please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) along with form no. ISR-1 as per SEBI Circular dated 03rd November, 2021 by email and in hard copy to M/s Satellite Corporate Services Private Limited, Registrar and Transfer Agent at service@satellitecorporate.com / Company at companysecretary@rasresorts.com (Kindly click the following link to download the form: http://www.satellitecorporate.com/KYC-IR%20physical.pdf)

2. Shares in Dematerialized Mode: please provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to M/s Satellite Corporate Services Private Limited, Registrar and Transfer Agent at service@satellitecorporate.com / Company at companysecretary@rasresorts.com for sending the notice through email and also get the details updated in your demat account for future purpose.

Place: Mumbai
 Date: 19.06.2023

For Ras Resorts and Apart Hotels Limited
 Sd/-
 Binita Patel
 Company Secretary & Compliance Officer

HERO MotoCorp Limited
 CIN: L35911DL1984PLC017354
 Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj - Phase II, New Delhi - 110070
 Phone No. 011-46044220 / Fax No. 011-46044399
 E-mail: secretarialho@heromotocorp.com
 Website: www.heromotocorp.com

PUBLIC NOTICE FOR ISSUE OF DUPLICATE SHARE CERTIFICATE

Members of the general public and existing shareholders of Hero MotoCorp Ltd. ("Company") are hereby informed that the Original Share Certificate, details of which are given hereunder have been reported lost/misplaced/stolen/not received and that pursuant to request received from concerned shareholder, the Company intends to issue duplicate share certificate in lieu of the said original Share Certificate (Face Value Rs.2/-) in its favour:

Folio No.	Shareholder Name	Face Value	Distinctive Nos.	Certificate No.(s)	No. of Shares
HMLD0104334	Pradip Kumar Sampathlal Shah	FV 2/-	158922581-158922830	515977	250

Any person having objection to issue of duplicate Share Certificate, as mentioned herein above, may submit the same, in writing, with the Company marked to the "Secretarial Department" at its Registered Office or send an email at secretarialho@heromotocorp.com within 7 days from the date of publication of this Notice. In the meanwhile, members of the public are hereby cautioned against dealing in the above mentioned Share Certificate.

For Hero MotoCorp Ltd.
 Sd/-
 Dhiral Kapoor
 Company Secretary & Compliance Officer

Place: New Delhi
 Date: 19.06.2023

SOM DATT FINANCE CORPORATION LIMITED
 CIN: L6592DL1993PLC377542
 Registered Office: 516, Sunega Tower-I, District Centre, Janakpuri, Delhi - 110058
 Tel No. 0124-4396900; compliancesd@sdfl.com; Website: www.somdattfin.com.

PUBLIC NOTICE

(In accordance with Master Direction No. DNBR PD.007/03.10.119/2016-17 dated September 1, 2016, issued by the Reserve Bank of India)

1. Som Datt Finance Corporation Limited ("Company") was incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 as a public limited company. The Company is registered with the Reserve Bank of India ("RBI") as a Non-Banking Financial Company ("NBFC") vide certificate of registration bearing No. B-14 03556 dated September 23, 2021. The Company inter-alia is engaged in the business of investments, loans and advances etc.

2. As on date, the Company has a total paid up equity share capital of Rs. 10,00,79,700 (rupees ten crores seventy nine thousand seven hundred only), comprising of 1,00,07,970 (one crore seven thousand nine hundred and seventy) fully paid-up equity shares of face value Rs. 10 (rupees ten only) each and the shareholding pattern is divided in the manner as follows:

(i) 69,39,650 (sixty nine lakh thirty nine thousand six hundred and fifty) equity shares of face value Rs. 10 (rupees ten only) each of the Company, constituting 69.34% (sixty nine point three four percent) of the total equity share capital of the Company held by persons belonging to the promoter and promoter group of the Company and being Mr. Kuldip Singh Rathee and Mrs. Vijay Rathee (collectively the "Sellers"), and

(ii) 30,68,320 (thirty lakh sixty eight thousand three hundred and twenty) equity shares of face value Rs. 10 (rupees ten only) each of the Company, constituting 30.66% (thirty point six six percent) of the total equity share capital of the Company held by the public shareholders.

The equity shares of the Company are listed and traded on BSE Limited ("BSE").

3. As the Sellers do not wish to continue with the NBFC business, they propose to sell their entire stake in the Company to two individuals namely (i) Dr. Bhaskara Rao Bollineni S/O late Mr. Ramanahai Naidu Bollineni, an adult Indian inhabitant, age about 69 years, residing at H No. 21-26/4, Survey No. 611, 612 and 613, Mission Compound Near RGI Police Station, Shamshabad, Hyderabad - 501218, Telangana, and (ii) Mr. Bhavanam Rutvik Reddy S/O late Mr. Bhavanam Srinivas Reddy, an adult Indian inhabitant, age about 28 years, residing at 8-2-29/82/HE/4, Huda Enclave, Jubilee Hills, Near Andhra Jyothi Office, Shaikpet, Hyderabad - 500096, Telangana ("Acquirers"). For the same, the Acquirers have entered into a Share Purchase Agreement dated November 09, 2022 ("SPA"), with the Sellers for the acquisition of up to 69,39,650 equity shares of face value Rs. 10 each of the Company, representing 69.34% of the total issued, outstanding and fully paid-up equity share capital of the Company carrying voting rights ("Sale Shares") for an aggregate consideration of Rs. 23,51,00,000 (rupees twenty three crore fifty one lakhs only), which works out to approx. Rs. 33.88 (rupees thirty three and paise eighty eight only) per equity share.

4. Dr. Bhaskara Rao Bollineni holds a bachelor's degree in medicine and surgery (MBBS) from Rangaraya Medical College from Andhra University and master's degree in surgery (MS) from Madras Medical College from University of Madras and completed his post-graduation in Diplomate of National Board (DNB) specialised in Cardio Thoracic Surgery which is a medical qualification awarded by the National Board of Examinations, New Delhi. He is among the pioneering cardiothoracic surgeons in the country. He is the founder of the prestigious Krishna Institute of Medical Sciences Limited (KIMS). He was instrumental in formulating the Rajiv Gandhi Arogyasri scheme that imparts healthcare to the low-income earning individuals. Mr. Bhavanam Rutvik Reddy holds a bachelor's degree in Technology specialised in Civil Engineering from SRM Institute of Science and Technology (formerly known as SRM University). He has an experience of 5 years as business analyst.

5. As a result of entering into the SPA with the Sellers, the Acquirers have triggered the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("Takeover Regulations") and therefore, have made an open offer to the public shareholders of the Company vide Public Announcement dated November 09, 2022. Detailed Public Statement published on November 16, 2022 and the Letter of Offer dated May 19, 2023, to acquire up to 26,02,073 fully paid-up equity shares of face value Rs. 10 each of the Company representing 26.00% of the total issued, outstanding and fully paid-up equity share capital of the Company at an offer price of Rs. 33.88 (rupees thirty three and paise eighty eight only) per equity share plus Applicable Interest of Rs. 0.52 (paise zero and paise ninety two only) per equity share both amounting to Rs. 34.80 (rupees thirty four and paise eighty only) per equity share ("Offer Price plus Applicable Interest"), for an aggregate consideration of up to Rs. 9,05,52,140.40 (rupees nine crore five lakhs fifty two thousand one hundred and forty and paise forty only) ("Open Offer"). The tendering period of Open Offer to the public shareholders of the Company has commenced on May 29, 2023 and closed on June 09, 2023.

6. Pursuant to completion of the Open Offer formalities in accordance with the Takeover Regulations and in terms of the SPA, the Acquirers will gain control over the management of the Company and will accordingly take steps to categorise themselves as the new promoters of the Company.

7. In terms of the Master Direction No. DNBR PD.007/03.10.119/2016-17 dated September 1, 2016, issued by the RBI, the Company had made an application dated November 15, 2022 to the Regional Office of the RBI, Department of Supervision, New Delhi, seeking the prior approval of the RBI for the proposed change in control and management of the Company. RBI has vide its letter dated May 11, 2023, bearing reference No. P. Pr. (C.R. No. 1540/2022) dated May 11, 2023 and 24 granted its prior approval for the proposed change in control and management of the Company ("RBI's Approval Letter").

8. Notice is hereby given that any person having any objection to or whose interest is likely to be affected by the proposed change in ownership, control and management of the Company may intimate in writing to (i) the Company; and (ii) the concerned Regional Office of the Reserve Bank of India, Department of Supervision, New Delhi within 30 (thirty) days from the date of publication of this notice stating therein the nature of interest and ground for objection.

9. After expiry of the 30 (thirty) days from the date of publication of this notice, the Sellers will sell the Sale Shares and relinquish their ownership, control and management of the Company to the Acquirers. Subsequently, the constitution of the present board of the directors of the Company will undergo a change viz. new directors will be appointed and certain current directors may resign.

10. This notice is being given pursuant to RBI's Master Direction in terms of Non-Banking Financial Company Non-Systemically Important Non-Deposit taking Company (Reserve Bank) Directions, 2016, issued in terms of Master Direction No. DNBR PD.007/03.10.119/2016-17 dated September 1, 2016, read with RBI's Approval Letter, and other relevant regulations, jointly by the Acquirers, the Company and the Sellers.

By Som Datt Finance Corporation Limited
 Sd/-
 Mrs. Vijay Rathee
 Managing Director
 By Sellers
 Sd/-
 Mr. Kuldip Singh Rathee
 By Acquirers
 Sd/-
 Dr. Bhaskara Rao Bollineni
 Sd/-
 Mr. Bhavanam Rutvik Reddy

Place: Gurugram
 Date: June 19, 2023

TRANSMISSION CORPORATION OF TELANGANA LIMITED
TENDER NOTICE

The TSTransco invites online Bids under e-procurement for supply of following material.

1. Tender Specification No.: TSPMM22-21/2023, Description of Material: Supply of 9 Nos. each of 250 KVA & 100 KVA, 33kV/415V Station Transformers.

2. Tender Specification No.: TSPMM23-22/2023, Description of Material: Supply & Installation of Desktop Computers. Ph: 040-23396000 (Extn. 3670, 3583, 3460, 3357, 3521, 3334)

Tenders can have further details and download the tender schedule from e-procurement market place i.e. http://tender.telangana.gov.in (Telangana State), Contact Nos.: CHIEF ENGINEER/ P&MM, TSTransco, 040-23303736 www.tstransco.in
 RO- 11/23
 Sd/- Chief Engineer/P&MM

NEULAND LABORATORIES LIMITED
 (CIN: L85195TG1984PLC004393)
 Registered office: 11th Floor (5th Level), Phoenix IVY Building, Plot No. 57A-III, Road No. 82, Jubilee Hills, Hyderabad, 500033, Telangana, India. Tel: +91 40 6761 1600
 Website: www.neulandlabs.com email: ir@neulandlabs.com

NOTICE OF 39th ANNUAL GENERAL MEETING

1. Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Thursday, July 27, 2023, at 11.00 a.m. IST through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") facility, in accordance with General Circular nos. 14/2020 and 17/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020, read with other relevant circulars, including General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 issued by SEBI (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"), without the physical presence of the members at a common venue.

2. The notice of the AGM and the Annual

